



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 अग्रहायण 1939 (श10)
(सं0 पटना 1199) पटना, बुधवार, 20 दिसम्बर 2017

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना
11 दिसम्बर 2017

सं० नि० प्रा० नि०-09/ 2017-**1218**—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न **अनुलग्नक-1** में अंकित **22 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल का निर्वाचन कराने का निर्णय** लिया गया है।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद्वारा संलग्न **अनुलग्नक-2** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार अनुलग्नक-1 में अंकित **जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के** उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु **18-01-2018 (गुरुवार)** की तिथि नियत करता है तथा **जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक** के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन **जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों** (आगे इसे सिर्फ समिति के नाम से संबोधित किया गया है) के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-1078 दिनांक 01.11.2017, पत्रांक 1081 दिनांक 03.11.2017 तथा पत्रांक 1112 दिनांक 09.11.2017 द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 31.10.2017 निर्धारित की गयी है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन क्रमशः दिनांक 18.11.2017 एवं 27.11.2017 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- (i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।
- (ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।
- (iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।
- (v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।
- (vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे।
- (vii) किन्तु चूँकि जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के निदेशक मंडल में निर्वाचित होने वाले पदों की संख्या- [ग्रुप-I से बैंक के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहित कुल 10 (दस) निदेशक, ग्रुप-II से 01 (एक) निदेशक एवं ग्रुप-III से 02 (दो) निदेशक] ग्रुपवार 13 (तेरह) हैं, अतएव उनका आरक्षण आदर्श रोस्टर बिंदु के अनुसार किया जायेगा। तदनुसार संलग्न मानक प्रपत्र-ई० 1 में आरक्षणवार पदों का उल्लेख कर दिया गया है।

निर्वाचन पदाधिकारी निदेशक मंडल के विभिन्न ग्रुपों के पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न मानक प्रपत्र-ई० 1 में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 22.12.2017 (शुक्रवार) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त समिति के संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को निर्वाचन पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका में अंकित प्रपत्र ई० 6 में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्र ई० 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फ़ैक्स (0612-2231562, 2215089) अथवा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,
फूल सिंह,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

अनुलग्नक-1

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सूची

क्रमांक	जिला	बैंक का निबन्धित नाम एवं मुख्यालय	पत्राचार का पता
1	2	3	4
1	भागलपुर	दी भागलपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भागलपुर, मुख्यालय - भागलपुर	रेड क्रॉस रोड, आदमपुर, भागलपुर-812001
2	रोहतास, कैमूर	दी सासाराम-भभुआ सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सासाराम, मुख्यालय - सासाराम	पो0+थाना-सासाराम, जिला-रोहतास
3	मुजफ्फरपुर	दी मुजफ्फरपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुजफ्फरपुर, मुख्यालय - मुजफ्फरपुर	सदर हॉस्पिटल रोड, कम्पनी बाग, मुजफ्फरपुर-842001
4	सीवान	दी सीवान सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीवान, मुख्यालय - सीवान	कोर्ट कम्पाउण्ड, सीवान
5	पू० चम्पारण (मोतिहारी)	दी मोतिहारी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मोतिहारी, मुख्यालय - मोतिहारी	भावानीपुर, जिला बैंक रोड, मोतिहारी-845401
6	वैशाली	दी वैशाली जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड मुख्यालय - हाजीपुर	हॉस्पिटल रोड, हाजीपुर, वैशाली
7	कटिहार	दी कटिहार जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, कटिहार, मुख्यालय - कटिहार	शोभा मार्केट, राजेन्द्र प्रसाद पथ, कटिहार
8	भोजपुर(आरा)	सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आरा मुख्यालय -आरा	तपेश्वर स्थान, मंगल पाण्डेय पथ, पोस्ट-नवादा, आरा, जिला-भोजपुर
9	गया, जहानाबाद, अरवल	दी मगध सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गया, मुख्यालय - गया	
10	नवादा	दी नवादा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नवादा, मुख्यालय - नवादा	
11	पूर्णियां	दी पूर्णियां जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पूर्णिया, मुख्यालय - पूर्णियां	कोर्ट कम्पाउण्ड, पूर्णियां
12	मधुबनी	दी रोहिका सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मधुबनी	थाना चौक, मधुबनी-847211
13	नालन्दा	नालन्दा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहारशरीफ	पुरानी जेल रोड,पोस्ट-बिहारशरीफ, नालन्दा-803101
14	समस्तीपुर	दी समस्तीपुर जिला केन्द्रीय सहकारिता बैंक लिमिटेड, समस्तीपुर, मुख्यालय - समस्तीपुर	काशीपुर कचहरी परिसर, पो0+जिला-समस्तीपुर, 848101
15	गोपालगंज	दी गोपालगंज सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोपालगंज, मुख्यालय - गोपालगंज	पोस्ट ऑफिस चौक, पो०-गोपालगंज,गोपालगंज-841428
16	सीतामढ़ी, शिवहर	दी सीतामढ़ी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीतामढ़ी, मुख्यालय - सीतामढ़ी कोर्ट (डुमरा)	सीतामढ़ी कोर्ट, पो0-प्रधान डाकघर, सीतामढ़ी-843301
17	प० चम्पारण (बेतिया)	दी नेशनल सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेतिया, मुख्यालय - बेतिया	उज्जैन टोला, बेतिया
18	खगड़िया	दी खगड़िया जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, खगड़िया, मुख्यालय - खगड़िया	मुहल्ला-मुरगियाचक, खगड़िया

क्रमांक	जिला	बैंक का निबन्धित नाम एवं मुख्यालय	पत्राचार का पता
1	2	3	4
19	मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा	दी मुंगेर-जमुई सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंगेर, मुख्यालय - मुंगेर	
20	पटना	पाटलीपुत्रा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पटना मुख्यालय - पटना	
21	औरंगाबाद	दी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद मुख्यालय - औरंगाबाद	
22	बेगूसराय	बेगूसराय केन्द्रीय सहकारिता बैंक लिमिटेड, बेगूसराय मुख्यालय - बेगूसराय	

अनुलग्नक-2

अनुलग्नक-1 में उल्लिखित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंको के निदेशक मंडल के
निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई 1 में सूचना का प्रकाशन	22.12.2017 (शुक्रवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	08.01.2018 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	09.01.2018 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	10.01.2018 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	18.01.2018 (गुरुवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	18.01.2018 (गुरुवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक निर्वाचन

प्रपत्र ई०-1

सूचना का प्रपत्र

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक,, निबंधन संख्या....., पता.....
के निदेशक मंडल का निर्वाचन दिनांक.....को किया जाना है,

मैं.....(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित
आम सूचना देता हूँ :-

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 13 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1.	2.
<u>ग्रुप-I</u>	
अध्यक्ष	01 (अनारक्षित)
उपाध्यक्ष	01 (अनारक्षित)
निदेशक	08
• सामान्य कोटि	02 पद (अनारक्षित) (जिसमें एक पद महिला के लिए आरक्षित)
• अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि	02 पद (आरक्षित) (जिसमें एक पद महिला के लिए आरक्षित)
• अतिपिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद (आरक्षित)
• पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद (आरक्षित)
• प्रोफेशनल कोटि	02 पद (सामान्य कोटि-1, अतिपिछड़ा वर्ग कोटि-1)
<u>ग्रुप-II</u>	
निदेशक	01
• सामान्य कोटि	01 पद (अनारक्षित)
<u>ग्रुप-III</u>	
निदेशक	02
• सामान्य कोटि	01 पद (अनारक्षित)
• प्रोफेशनल कोटि (सामान्य कोटि)	01 पद (अनारक्षित)

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय..... (स्थान का नाम) अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में (उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) को.....
.....(स्थान का नाम) पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दिनांक
.....(नामांकन पत्र दाखिला की तिथि) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....
.....तकबजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....(स्थान का नाम) पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं लगातार चलती रहेगी।

- (v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को अपराह्नबजे के पूर्व तक
(स्थान का नाम) पर दाखिल की जा सकती है।
- (vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को 07 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक होगा।
- (vii) मतगणना दिनांक.....कोबजे से..... (स्थान का नाम) पर की जायेगी।

स्थान-

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 1199-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>